

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 633]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 23, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 6420-400-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०१०

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ४) अधिनियम, २०१०

[दिनांक ८ दिसम्बर, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ दिसम्बर, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१० है.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिये राज्य की संचित निधि में से ६८,७३,९२,०८,८०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छः हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ बानवें लाख आठ हजार आठ सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधानसभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३,८४,७८,१९,४००	३,८४,७८,१९,४००
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	२००	२००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	९,५३,२३,०००	९२,००,०००	१०,४५,२३,०००
		पूंजी	५७,८७,५००	०	५७,८७,५००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	८,००,०००	०	८,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	४,०१,०१,२१,१००	०	४,०१,०१,२१,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व पूंजी	१,९८,४७,००० ६०,००,०००	० ०	१,९८,४७,००० ६०,००,०००
०५.	जेल	राजस्व	१४,३८,८०,१००	०	१४,३८,८०,१००
०६.	वित्त	राजस्व	५,००,०२,५०,०००	०	५,००,०२,५०,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	२३,८८,९५,०००	०	२३,८८,९५,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व पूंजी	१,४२,२३,५४,००० ९,२३,९०,०००	० ०	१,४२,२३,५४,००० ९,२३,९०,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	५,४२,९१,०००	०	५,४२,९१,०००
१०.	वन	राजस्व	१,०२,१७,०७,१००	१५,७५,०००	१,०२,३२,८२,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व पूंजी	११,६५,१५,१०० १,००,००,०००	० ०	११,६५,१५,१०० १,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व पूंजी	१,७५,५४,७०० ६,७५,६८,००,०००	० ०	१,७५,५४,७०० ६,७५,६८,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३२,१५,०६,०००	०	३२,१५,०६,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	४९,९९,९१,०००	०	४९,९९,९१,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.				

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१६. मछली पालन	राजस्व	३,२३,७४,०००	०	३,२३,७४,०००
	राजस्व	१३,७५,८८,०००	०	१३,७५,८८,०००
१७. सहकारिता	राजस्व	१६,९०,३०,०००	०	१६,९०,३०,०००
	राजस्व	३,८९,१९,०००	०	३,८९,१९,०००
१८. श्रम	राजस्व	२,८१,६५,७४,०००	०	२,८१,६५,७४,०००
	राजस्व	४९,४७,३५,०००	०	४९,४७,३५,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	६,०१,२०,०००	०	६,०१,२०,०००
	राजस्व	४२,२३,७०,०००	०	४२,२३,७०,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	५०,००,०००	५०,००,०००	५०,००,०००
	पूँजी	४९,४७,३५,०००	०	४९,४७,३५,०००
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	५२,२३,७०,०००	०	५२,२३,७०,०००
	राजस्व	३,५९,८८,२५,०००	०	३,५९,८८,२५,०००
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय.	राजस्व	१,५७,०६,००,०००	०	१,५७,०६,००,०००
	राजस्व	३,४५,७४,६०,८००	०	३,४५,७४,६०,८००
२३. जल संसाधन	राजस्व	२,५७,००,०००	०	२,५७,००,०००
	पूँजी	३,५९,८८,२५,०००	०	३,५९,८८,२५,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१,५७,०६,००,०००	०	१,५७,०६,००,०००
	पूँजी	३,४५,७४,६०,८००	०	३,४५,७४,६०,८००
२५. खनिज साधन	राजस्व	२,५७,००,०००	०	२,५७,००,०००
	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
	पूँजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व ८,८९,५९,९४,१०० पूँजी ३६,८१,००,०००	० ०	८,८९,५९,९४,१०० ३६,८१,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व १,३६,२५,०००	०	१,३६,२५,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व ९६,३४,००,०००	२,४०,००,०००	९८,७४,००,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व ३४,१३,८०,००० पूँजी १,५७,३८,००,०००	० ०	३४,१३,८०,००० १,५७,३८,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व २४,७३,००,०००	०	२४,७३,००,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व ५,२४,१८,१००	०	५,२४,१८,१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व १,१९,०७,७३,०००	०	१,१९,०७,७३,०००
३४.	समाज कल्याण	राजस्व १३,४२,८१,०००	०	१३,४२,८१,०००
३६.	परिवहन	राजस्व ४,९१,१९,३००	१,००,०००	४,९२,१९,३००
३८.	आयुष	राजस्व ३६,८४,१५,००० पूँजी ४,२२,५०,०००	० ०	३६,८४,१५,००० ४,२२,५०,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व ३९,२९,५३,८००	०	३९,२९,५३,८००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व ३७,५२,०००	०	३७,५२,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व ५३,०६,५४,००० पूँजी १,१३,५३,५०,०००	० ०	५३,०६,५४,००० १,१३,५३,५०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूँजी	३०,००,००,१००	०	३०,००,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	२,९२,६०,१००	०	२,९२,६०,१००
		पूँजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	९९,३५,९०,०००	०	९९,३५,९०,०००
		पूँजी	२६,४३,१८,०००	०	२६,४३,१८,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजी	५०,००,००,०००	१,८५,३३,०००	५१,८५,३३,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	१६,८४,०४,४००	०	१६,८४,०४,४००
		पूँजी	८०,००,०००	०	८०,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	८,६७,५७,०००	०	८,६७,५७,०००
५०.	बीस सूत्र कार्यान्वयन	राजस्व	२८,२४,४००	०	२८,२४,४००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	३,६७,०००	०	३,६७,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५७,३७,०७,०००	०	५७,३७,०७,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२,६१,६६,८८,०००	१५,००,०००	२,६१,८१,८८,०००
		पूँजी	३१,२४,३८,०००	०	३१,२४,३८,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	३,०६,७०,१००	०	३,०६,७०,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	५,१७,५०,०००	०	५,१७,५०,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
६२.	पंचायत	राजस्व	१५,९२,४७,०००	०	१५,९२,४७,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	२३,४०,५००	०	२३,४०,५००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	७८,०२,८०,०००	०	७८,०२,८०,०००
		पूंजी	९९,६७,००,१००	०	९९,६७,००,१००
६५.	विमानन	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
		पूंजी	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,३५,२०,७३,०००	०	१,३५,२०,७३,०००
		पूंजी	१७,८८,७०,०००	०	१७,८८,७०,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	४८,२९,६२,०००	०	४८,२९,६२,०००
		पूंजी	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	पूंजी	५,४५,००,०००	०	५,४५,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,८४,८१,०००	०	१,८४,८१,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	५३,७०,२१,१००	०	५३,७०,२१,१००
		पूंजी	७,५४,५०,२००	०	७,५४,५०,२००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२४,९५,७२,०००	०	२४,९५,७२,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	८२,३७,००,०००	०	८२,३७,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)			
	राजस्व	२,१७,३६,९६,१००	६०,००,०००
	पूंजी	५,००,००,०००	०
७८. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	३४,२४,९७,०००	०
७९. अपरम्परागत ऊर्जा	राजस्व	४,६१,१८,४००	०
	राजस्व	४४,०३,३७,०६,५००	३,८९,५१,९४,४००
योग :	पूंजी	२०,७९,१७,७४,७००	१,८५,३३,२००
वृहद योग :		६४,८२,५४,८१,२००	३,९१,३७,२७,६००
			४७,९२,८९,००,९००
			२०,८१,०३,०७,९००
			६८,७३,९२,०८,८००

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 6421-400-इक्कीस-अ(प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 26, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No.-4) ACT, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 8th December, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th December, 2010.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2010-2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2010.

Issue of Rs. 68,73,92,08,800 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2010-2011.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Six thousand eight hundred seventy three crore ninety two lakh eight thousand eight hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2010-2011 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	3,84,78,19,400	3,84,78,19,400
	Charged Appropriation- Public Debt.	Capital	0	200	200
01	General Administration	Revenue	9,53,23,000	92,00,000	10,45,23,000
		Capital	57,87,500	0	57,87,500
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	8,00,000	0	8,00,000
03	Police	Revenue	4,01,01,21,100	0	4,01,01,21,100
04	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	1,98,47,000	0	1,98,47,000
		Capital	60,00,000	0	60,00,000
05	Jail	Revenue	14,38,80,100	0	14,38,80,100
06	Finance	Revenue	5,00,02,50,000	0	5,00,02,50,000
07	Commercial Tax	Revenue	23,88,95,000	0	23,88,95,000
08	Land Revenue and District Administration	Revenue	1,42,23,54,000	0	1,42,23,54,000
		Capital	9,23,90,000	0	9,23,90,000
09	Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	5,42,91,000	0	5,42,91,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
10	Forest	Revenue	1,02,17,07,100	15,75,000	1,02,32,82,100
11	Commerce, Industry and Employment.	Revenue	11,65,15,100	0	11,65,15,100
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
12	Energy	Revenue	1,75,54,700	0	1,75,54,700
		Capital	6,75,68,00,000	0	6,75,68,00,000
13	Farmers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	32,15,06,000	0	32,15,06,000
14	Animal Husbandry	Revenue	49,99,91,000	0	49,99,91,000
15	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan.	Revenue	3,23,74,000	0	3,23,74,000
16	Fisheries	Revenue	13,75,88,000	0	13,75,88,000
17	Co-operation	Revenue	16,90,30,000	0	16,90,30,000
18	Labour	Revenue	3,89,19,000	0	3,89,19,000
19	Public Health and Family Welfare	Revenue	2,81,65,74,000	0	2,81,65,74,000
20	Public Health Engineering	Revenue	81,00,75,000	50,00,000	81,50,75,000
		Capital	49,47,35,000	0	49,47,35,000
21	Housing and Environment	Revenue	6,01,20,000	0	6,01,20,000
22	Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	2,33,80,000	0	2,33,80,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
23	Water Resources Department			
	Revenue	52,23,70,000	0	52,23,70,000
	Capital	3,59,88,25,000	0	3,59,88,25,000
24	Public Works-Roads and Bridges			
	Revenue	1,57,06,00,000	0	1,57,06,00,000
	Capital	3,45,74,60,800	0	3,45,74,60,800
25	Mineral Resources			
	Revenue	2,57,00,000	0	2,57,00,000
26	Culture			
	Revenue	13,78,70,000	0	13,78,70,000
	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
27	School Education (Primary Education).			
	Revenue	8,89,59,94,100	0	8,89,59,94,100
	Capital	36,81,00,000	0	36,81,00,000
28	State Legislature			
	Revenue	1,36,25,000	0	1,36,25,000
29	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	96,34,00,000	2,40,00,000	98,74,00,000
30	Rural Development			
	Revenue	34,13,80,000	0	34,13,80,000
	Capital	1,57,38,00,000	0	1,57,38,00,000
31	Planning Economics and Statistics			
	Revenue	24,73,00,000	0	24,73,00,000
32	Public Relations			
	Revenue	5,24,18,100	0	5,24,18,100
33	Tribal Welfare			
	Revenue	1,19,07,73,000	0	1,19,07,73,000
34	Social Welfare			
	Revenue	13,42,81,000	0	13,42,81,000
36	Transport			
	Revenue	4,91,19,300	1,00,000	4,92,19,300
38	Ayoush			
	Revenue	36,84,15,000	0	36,84,15,000
	Capital	4,22,50,000	0	4,22,50,000
39	Food, Civil Supplies and Consumer Protection			
	Revenue	39,29,53,800	0	39,29,53,800

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
40	Expenditure pertaining to Water Resources Department-Command Area Development	Revenue	37,52,000	0	37,52,000
41	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	53,06,54,000	0	53,06,54,000
		Capital	1,13,53,50,000	0	1,13,53,50,000
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	30,00,00,100	0	30,00,00,100
43	Sports and Youth Welfare	Revenue	2,92,60,100	0	2,92,60,100
		Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
44	Higher Education	Revenue	99,35,90,000	0	99,35,90,000
		Capital	26,43,18,000	0	26,43,18,000
45	Minor Irrigation Works	Capital	50,00,00,000	1,85,33,000	51,85,33,000
47	Technical Education and Training	Revenue	16,84,04,400	0	16,84,04,400
		Capital	80,00,000	0	80,00,000
49	Scheduled Caste Welfare	Revenue	8,67,57,000	0	8,67,57,000
50	20 Point Implementation	Revenue	28,24,400	0	28,24,400
51	Religious Trusts and Endowments.	Revenue	3,67,000	0	3,67,000
52	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	57,37,07,000	0	57,37,07,000
55	Women and Child Development	Revenue	2,61,66,88,000	15,00,000	2,61,81,88,000
		Capital	31,24,38,000	0	31,24,38,000
56	Rural Industry	Revenue	3,06,70,100	0	3,06,70,100

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
58	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	5,17,50,000	0	5,17,50,000
61	Expenditure pertaining to Bundelkhand package	Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
62	Panchayat	Revenue	15,92,47,000	0	15,92,47,000
63	Minority Welfare	Revenue	23,40,500	0	23,40,500
64	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	78,02,80,000	0	78,02,80,000
		Capital	99,67,00,100	0	99,67,00,100
65	Aviation	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	1,35,20,73,000	0	1,35,20,73,000
		Capital	17,88,70,000	0	17,88,70,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	48,29,62,000	0	48,29,62,000
		Capital	24,00,00,000	0	24,00,00,000
69	Information Technology	Capital	5,45,00,000	0	5,45,00,000
72	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.	Revenue	1,84,81,000	0	1,84,81,000
73	Medical Education Department	Revenue	53,70,21,100	0	53,70,21,100
		Capital	7,54,50,200	0	7,54,50,200
74	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	24,95,72,000	0	24,95,72,000
75	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	82,37,00,000	0	82,37,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
77	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	2,17,36,96,100	60,00,000	2,17,96,96,100
	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
78	Horticulture and Food Processing.			
	Revenue	34,24,97,000	0	34,24,97,000
79	Non-Conventional Energy			
	Revenue	4,61,18,400	0	4,61,18,400
	Total ..			
	{ Revenue ..	44,03,37,06,500	3,89,51,94,400	47,92,89,00,900
	{ Capital ..	20,79,17,74,700	1,85,33,200	20,81,03,07,900
	Grand Total ..	64,82,54,81,200	3,91,37,27,600	68,73,92,08,800